



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 आषाढ़ 1947 (श10)

(सं0 पटना 1162) पटना, शुक्रवार, 27 जून 2025

सं० 01/सा0सु0 योजना-21/2025-1527/स0क0
समाज कल्याण विभाग
(सामाजिक सुरक्षा निदेशालय)

संकल्प

25 जून 2025

विषय :- राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना अन्तर्गत वर्तमान में पात्र लाभुकों को दी जा रही पेंशन की राशि माह जून, 2025 से रू0 400/- (चार सौ रुपये) एवं रू0 500/- (पाँच सौ रुपये) को बढ़ाकर रू0 1100/- (ग्यारह सौ रुपये) प्रतिमाह करने एवं इसके निमित्त कुल रू0 41,56,57,62,000/- (चार हजार एक सौ छप्पन करोड़ सत्तावन लाख बासठ हजार रुपये) के अतिरिक्त वार्षिक व्यय किये जाने की स्वीकृति।

समाज कल्याण विभाग के अधीन सामाजिक सुरक्षा निदेशालय अन्तर्गत राज्य के वृद्धजनों को सम्मानपूर्वक जीवनयापन का अवसर प्रदान करने एवं मासिक पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना संचालित की गयी है।

- इस योजनान्तर्गत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी आय वर्ग के वृद्धजन, जिन्हें केन्द्र/राज्य सरकार से कोई वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन या अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त नहीं हो रहा हो, को रू0 400/- (चार सौ रुपये) प्रतिमाह एवं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्ध व्यक्ति को रू0 500/- (पाँच सौ रुपये) प्रतिमाह पेंशन उनके बैंक खाता में डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।
- इस योजना अन्तर्गत प्रारम्भ से अबतक देय पेंशन की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है। वर्तमान में बढ़ती मँहगाई एवं अन्य राज्यों द्वारा वृद्धजनों को दी जा रही मासिक पेंशन की देय राशि को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना अन्तर्गत दी जा रही मासिक पेंशन की राशि में वृद्धि की आवश्यकता महसूस की गयी है।
- उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना अन्तर्गत वर्तमान में पात्र लाभुकों को दी जा रही पेंशन की राशि माह जून, 2025 से रू0 400/- (चार सौ रुपये) एवं रू0 500/- (पाँच सौ रुपये) को बढ़ाकर रू0 1100/- (ग्यारह सौ रुपये) प्रतिमाह करने एवं इसके निमित्त कुल रू0

41,56,57,62,000/— (चार हजार एक सौ छप्पन करोड़ सत्तावन लाख बासठ हजार रुपये) के अतिरिक्त वार्षिक व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. प्रस्ताव पर संचिका सं०-01/सा०सु० योजना-21/2025 के टिप्पणी पृष्ठ 10/टि० पर दिनांक-24.06.2025 को मद सं०-42 में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बन्दना प्रेयषी,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1162-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>